

JINDAL LEASEFIN LIMITED

110, BABAR ROAD, (Opp. World Trade Centre) NEW DELHI - 110 001 INDIA • CIN : L74899DL1994PLC059252

TEL. :91-11-46201000 FAX : 91-11-46201002

E-mail : jindal@jindal.bz Website : www.jindal.bz

13th February, 2024

To,
The Secretary
Corporate Relations Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

<u>Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.</u>

Ref: - JINDAL LEASEFIN LIMITED (Scrip Code: 539947)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of Extract of Standalone Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2023, as published in newspapers viz. The Pioneer (English Newspaper) and Pioneer (Hindi Newspaper) dated 13th February, 2024.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking You.

For Jindal Leasefin Limited

SHIVAN Digitally signed by SHIVANI GUPTA Date: 2024.02.13 15:58:44 +05'30'

Shivani Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

M. No. 56157

PML-N, PPP discuss power-sharing formula to form government in Pak

he top leaders of the Pakistan the Pakistan Peoples Party have discussed a new power-sharing formula for dividing the five-year tenure between them, as efforts to form a coalition government gathered pace on Monday following a split verdict in the elec-

Despite independent candidates backed by jailed former prime minister Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) party winning the most seats in Parliament, questions loom over what the next government of Pakistan will look like. None of the three major parties, the PML-N, the PPP, or the PTI have won the necessary seats to secure a majority in the 266-member National Assembly and, therefore, will be unable to form government on their own, leaving it unclear who will be picked as the cash-strapped country's next prime minister.

The leaders of PML-N and the PPP discussed the idea of appointing a prime minister for half the term during their first meeting held on Sunday following the February 8 elections as part of their efforts to form a coalition government in the Centre and provinces, according to a source privy to the develop ment. "It has been proposed that a PML-N candidate will serve as prime minister for three years and PPP's leader for two years. the source said, adding that it was not yet decided who will get the first term. The meeting was attended by PPPattended Parliamentarian President Asif Ali Zardari, PPP Chairman Bilawal-Bhutto Zardari, and former prime minister Shehbaz

The same power-sharing formula was chalked out by PML-N and National Party (NP) in Balochistan in 2013 when two chief ministers from the two parties held office for half of the fiveyear term.

Sharif from the PML-N.

PML-N supremo Nawaz Sharif is still in the race for the prime ministerial slot despite his party not securing a simple majority in the Feb 8 general

IMF team likely

to visit Pak for

PTI ■ ISLAMABAD

bailout package

Adelegation of the IMF may visit cash-strapped

Pakistan once a new federal

government is formed, nego-

between major political par-

ties after the general elections

threw a hung Parliament, a

media report said on Monday.

Monetary Fund's review mis-

sion might visit Islamabad by

the end of this month or early

next month, provided the

government formation at fed-

eral and provincial levels was

complete, according to the

Ministry of Finance's assess-

icance as it is crucial for the

completion of the USD 3 bil-

lion Standby Arrangement (SBA), which is going to expire on April 12. The mis-

sion will finalise the salient

features of the anticipated medium-term bailout pack-

age to avert a default on

repayment of foreign debts, the report said. In its recent

staff report, the IMF talked about rephasing access for the

second review, to March 15, 2024, to provide sufficient time to complete the programme's structural agenda. However, in the wake of controversy over the poll results, the mission's possible delay for the completion of the second review and release of the last tranche worth USD 1.2 billion under SBA could lead to fears of default, the report said. Pakistan's foreign exchange reserves hovered around USD 8.04 billion during the week ending February 2, after witnessing a decline in reserves by USD 173 million due to external debt repayments. A Finance Division official said the IMF would only come to begin the second review talks once a

new government was sworn

in at the national level, according to the report.

1.2 billion was conditional upon the newly elected gov-

ernment assuming office. The new agreement will also be

finalised with the new gov-

ernment, he said.

The official added the last and third tranche of USD

The visit assumes signif-

ment, Geo News reported.

International

N leaders said on Monday.

We are having discussion with the PPP over power-sharing formula in the upcoming coalition government in the Centre and Nawaz Sharif cannot be ruled out as the prime ministerial candidate," PML-N Senator Irfan Saddique told a private news channel.

He said Nawaz Sharif, 74, is the candidate for the prime minister slot from the PML-N. In the Sunday meeting at the Bilawal House in Lahore, the two sides agreed in principle to cooperate for the country's political stability following the general election, the sources said. They confirmed that so far several open and behind-the-doors meetings have been held between the leaders of PML-N and PPP and other parties since the powerful Pakistan Army has also indicated that they will back a unity government to pull the country out of the challenges it faced. "The main hurdle is who will lead the government as both parties are pushing forward their candidates but after a lot of discussion, some sort of middle ground may emerge," according to a leader of the PML-N. A PPP leader said the party was not withdrawing from its demand that Bilawal Bhutto Zardari

because he was endorsed for the the PTI would form a strong post by the PPP's Central opposition. "We don't feel comfortable Executive Committee (CEC) even before the elections. The Election Commission of Pakistan has announced that

independent candidates, a

majority of them supported by

the PTI secured 101 seats, fol-

lowed by Pakistan Muslim

League-Nawaz (PML-N) with 75

seats, Pakistan Peoples Party

(PPP) getting 54 seats, and

Muttahida Qaumi Movement-

Pakistan (MQM-P) bagging 17

seats. Other parties got 17 seats

while the result of one con-

stituency was withheld. Though

the PTI initially claimed to form

the government but its chances

looked grim from the beginning

as at least 169 seats, in the house

of 336, were needed to form the

government. A total of 266 seats

are directly contested while 60

women-reserved seats and 10

minority seats are allocated

based on proportional represen-

tation to the winning parties. As

PTI was not allowed to contest

as a single party with a common

symbol, it was not qualified to get

on the opposition benches, leav-

ing the field open for PML-N

and PPP as well as others to form

a coalition, party leader Barrister

The PTI hence decided to sit

the reserved seats.

UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM

E-Tender Notice

Estimated Cost: - Rs. 55.92 Lakh (Without GST)

ALMORA, DISTRICT-ALMORA.

Period of Completion: 02 Month

portal:-12-02-2024(17.00 hrs)

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax

Exceptional and/or extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax

Comprising Profit/(Loss) for the period

and Other Comprehensive Income (after tax)]

eserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of the

Earning per Share (face Value of Rs.10/- each

Net Profit/(Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or extraordinary Items)

Total Comprehensive Income for the period

(17.00 hrs)

1. Name of the work:- CONSTRUCTION OF APPROACH

ROAD AT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE

Date and Time of availability of Bid documents in the

Online Bid submission: End date:- 19-02-2024

Date & Time of Technical bid Opening: 20-02-2024

Name and Address of the Officer inviting bid:- Project

Manager, Construction Unit, Uttarakhand Peyjal Nigam

For further details, details of subsequent Amendment

correction documentation etc. may be obtained from the

JINDAL LEASEFIN LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059252

Regd. Office: 110, Babar Road, New Delhi 110001

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2023

-1.53

e-Procurement portal www.uktenders.gov.in

with both (PML-N and PPP) of them. There will be no talks with anyone to make a government or to make a government together with them. It is better to sit in the opposition than to make a government [with them], but we think we have the majority," Gohar Khan told Dawn News on

Particulars

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period

before tax (after Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period

after tax (after Exceptional and/or

Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit /

(Loss) for the period (after tax)

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year

(of ₹10/- each) (for continuing

and discontinued operations) -

and Other Comprehensive

Income (after tax)]

. Earnings Per Share

Basic & Diluted (in ₹)

Date: 12.02.2024

31.03.202

-11.92

-11.92

-10.10

5.36

-10.43

-10.43

-8.97

-3.47

Extraordinary items#)

Extraordinary items#

Extraordinary items#)

Rejected ballots exceed victory margin in 24 constituencies

(₹ in Lakhs)

Previous

Year ended

(31.03.2023)

(Audited

1536.16

1536.16

1536.36

123.27

600.00

By Order of the Board

(G.D. Maheshwari)

DIN 00235209

Whole Time Director

Corresponding

Nine Months

(31.12.2022)

1805.87

1742.19

1742 19

1742.19

36.04

ended

of rejected ballots was greater than the margin of victory in at least 24 National Assembly constituencies, according to an interesting statistical nugget from Pakistan's recent general elections. The difference potentially opens doors for legal battles as several losing candidates have flooded the courts with petitions to review the results

According to a report in the Dawn newspaper, 22 constituencies with a greater number of rejected votes than the margin of victory fell in Punjab, with one each in

KEY CORP LIMITED

CIN No.:L65921UP1985PLC007547

Regd. Office:16/16-A, Civil Lines, Kanpur - 208001

Email: keycorpltd@gmail.com; Phone: 0512-3013416, 3010422, 2305416

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT (REVISED) FOR THE

THIRD QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2023

Current Corresponding

(31.12.2022

(Unaudited

1786.93

1771.32

1771.32

1771.32

32.05

600.00

Notes: 1. The above unaudited financial results have been revised as per directions of BSE notified to the company vide

their e-mail dated 29.01.2024. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results (Revised)

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 as amended, 3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the

websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. https://www.bseindia.com/stock-share-price/key-corp-

ltd/keycorp/507948/financials-results-special/. The above results have been reviewed by the Audit Committee and

approved by the board of directors of the company at its meeting held on 12.02.2024 The Statutory Auditor of the

company have carried out a limited review of accounts of the company for the third quarter ended 31st December, 2023

ended

(31.12.2023)

3015.38

2981.78

2981 78

516.69

600.00

Nine Months

(31.12.2023)

(Unaudited)

3036.97

2984.36

2984 36

2984.36

1449.87

600.00

Sindh province. The Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) won the electoral race in 13 of these constituencies, five were claimed by the Pakistan People's Party (PPP), four by the Pakistan Tehreeke-Insaf (PTI)-backed independents and two by other independents. Going by their numerical strength, both the PML-N and the PPP are in a position to form a coalition government in the Centre. However, PML-N supremo Nawaz Sharif announced that all parties except PTI should join hands in the upcoming the results announced by the Election Commission of Pakistan (ECP) till Sunday, of the total 265 National Assembly seats, PTI-backed Independents bagged 93 seats, followed by PML-N at 73, PPP at 54, MQM at 17 and others at 19.

The highest number of rejected votes was in the NA-59 (Talagang-cum-Chakwal) area of Punjab where Sardar Ghulam Abbas of PML-N secured 141,680 votes against Muhammad Ruman Ahmad, who got 129,716 votes.

The margin of victory was 11,964 while the number of ballot papers rejected was 24,547. It was followed by NA-213 Umerkot (17,571 ballots). The lowest number of ballots excluded are reported from NA-236 Karachi East-II (51 ballots). In total, around two million ballot papers have been excluded from the count from the 265 National Assembly constituencies.

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश Haridwar Road Rishikesh, Distt-Dehradun, Pin-249201
Website: www.nagarnigamrishikesh.com, Email: npprishikesh@gmail.com
Ph:0135-2430015,1800313529

तिथि विस्तारण एवं निविदा शुद्धि-पत्र

नगर निगम, ऋषिकेश के आई०एस० डब्ल्यू०एम० प्लाट लालपानी कक्ष सं0-1 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सन्टेंसी (पी०एम०सी०) के चयन हेतु इच्छुक अनुभवी, दक्ष, कम्पनी / फर्मों से 2 बिंड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत नगर निगम ऋषिकेश के कार्यालय पत्रांक सं0-3593 / सा०प्र० / 2023-24 दिनांक 30.01.2024 से 14.02.2024 तक ई-निविदा आमंत्रित की गई थी जिसकी प्री-बिड पुच्छाएं यथोचित शुद्धियों / संशोधनों सहित निस्तारित कर दी गई है तथा उक्त निविदा की अन्तिम तिथि विस्तारित करते हुए दिनांक 19.02.2024 तक विस्तारीकरण की जाती है उक्त सम्बन्धी समस्त सूचना, key-dates जो ई–निविदा websitewww.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

पत्रांक :- 3768/सा0प्र0/2023-24 दिनांक :- 12.02.2024

नगर आयक्त नगर निगम, ऋषिकेश

NORTHERN RAILWAY OPEN-E- TENDER NOTICE

The Sr. Divisional Engineer-III, Northern Railway, Delhi Division invites E-Tender for

Replacement of worn-out/damaged pipe line with different safety valves for Akshardham Rainy wall at KM 2/46 Near 2 nd Yamuna bridge including desilting of Rainy well to improve the water yield of rainy well in the s/o SSE/W/NDLS under ADEN/NDLS. Rs. 1,98,10,510.05/- (Rupees One Crore Ninety Eight

Lakh Ten Thousand Five Hundred Ten and Five paise only) Rs. 2,49,100/- (Two Lakh Forty Nine Thousand and One

Hundred Rupees) to be Deposit Rs. 0.00/-4. Cost of tender document 5. Date & Time of submission of tender 01.03.2024 at 15.00 Hrs bid and opening of tender. 6. Website particulars where complete www.ireps.gov.in

(IREPS) site i.e. www.ireps.gov.in for participating in the e-tender system. • For all terms and conditions please refer tender document.

acceptable. Cost of tender document and Earnest money will be acceptable or payment gateway only. No. 128erms and conditions please refer tender document. • No manual offers are acceptable through net banking or payment gateway only. No. 128-W/280/e Tender Notice/NIT/83/2023-24/W-3 Dated:-10.02.2024

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NORTHERN RAILWAY E-TENDER NOTICE

Sr. DEE-TRS-GZB acting for and on behalf of President of India invites E-Te against Tender No. 230-TRS-GZB-2023-24-09. The details are as under:

Name of the work: 'Annual Maintenance Contract (AMC) of Electric Loco Cab Air Conditioners mounted on roof of Locomotives' for a period of 12 (Twelve) months at Electric Loco Shed, Ghaziabad.

2. Approx. cost of work Rs. 69,76,937.08 Earnest Money to be Rs. 1,39,500.00

deposited

Last Date & Time of Submission of tender 04.03.2024 (11:00 Hrs.) Date & Time of opening of tender document | 04.03.2024 (After 11:00 Hrs.) 6. Website particulars where complete details of tender

Note: (i) The tenderer/s must be registered on the Indian Railway E-Procurement m (IREPS) site i.e. www.ireps.gov.in for participating in e-tender system (ii) For all terms and conditions please refer tender document. (iii) No manual offers are acceptable.

www.ireps.gov.in

(iv) Cost of Tender document and Earnest money will be acceptable through ne banking or payment gateway only

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NORTHERN RAILWAY

Tender Notice Invitation of tender through E-tendering (e-Procurement Systems) NIT No.: 6-SEFile-166192RT2Tender Name of Work and its location: Tender for "Works contract for Provision for supply,

office space in main shop, Shot Blast shop, paint shop, body repair shop, wheel shop, bogie shop, power car shop and miscellaneous shop at RCNK Sonipat" Approx. Cost of work: Rs. 47,38,234.23/- including GST

fixing & commissioning of Aluminum partitions work for providing chambers inside

(Rs. Forty-Seven Lakh Thirty-Eigth Thousand Two-Hundred Thirty-Four and Paise Twenty-Three Only) Earnest Money: Rs. 94,800/-

Completion period of work: 03 months of date of execution of work Cost of Tender document on cash/by post : NIL

Date and Time for submission of tender and opening of tender: Upto 11:00 rs. on 04.03.2024 Opening of Tender at 11:00 hrs. Website particulars notice board location complete details of tender can be seen : Above tender available on IREPS site i.e.

www.ireps.gov.in No.: 6-SEFile-166192RT2Tender Dated: 10.02.2024 462/2024 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

(RAJNEESH KUMAF DIN: 02463693



format of the Quarterly/Annual financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com The same is also available on the Company's website www.jindalleasefin.in The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting held on 12.02.2024 For Jindal Leasefin Limite

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial Results filed with the Stock Exchange

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

Date: 12.02.2024

not annualised)

. Basic

2. Diluted

(SURENDER KUMAR JINDAL

PROJECT MANAGER

Three Months Quarter Ended Nine Months Ended Year Ende

-8.85

-6.55

27.07

-0.24

31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

-2.02

-2.02

-1.68

-9.09

486.55

-0.06

-1.41

2.02

13.43

0.06

CIN No.:- L74899DL1994PLC061995 Regd. Office: 92, Khasra No-33/21, Ranaji Enclave, Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand New Delhi -110043 Email Id: superiorfinlease@gmail.com; Website: www.superiorfinlease.com; Phone No.: +91-9953798335 **Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results** for the Quarter ended on December 31, 2023

SUPERIOR FINLEASE LIMITED

1		Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
SI	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.03.2023
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	31.16	32.07	223.81
2	Net Profit / (Loss) for the period			
1	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.59	(9.36)	45.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
l	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.59	(9.36)	45.08
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.59	(9.36)	33.36
5	Total Comprehensive Income for the period			
l	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other			
l	Comprehensive Income (after tax)]	3.59	(9.36)	33.36
6	Equity Share Capital	300.10	300.10	300.10
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the			
	Audited Balance Sheet	77.58	77.58	77.58
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)			
l	1. Basic:	0.01	(0.03)	0.11
ı	2 Diluted :	0.01	(0.02)	Λ 11

 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31.12.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.msei.in and www.bseindia.com and the Company's website www.superiorfinlease.com

Place : New Delhi Date : February 12, 2024

Note:

MODI RUBBER LIMITED

CIN: L25199UP1971PLC003392, Registered Office: Modinagar - 201204 Dist. Ghaziabad (U.P.), Corporate Office: 4-7C, DDA Shopping Centre, New Friends Colony, New Delhi 110025 Website: www.modirubberlimited.com Email: investors@modigroup.net Phone: +91-11-2684 8416

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

		QUARTER ENDED				NINE MONTHS ENDED				YEAR ENDED			
SI.	Particulars =	STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE	CONSOLIDATED		
No.		31-Dec-23	31-Dec-22	30-Sep-23	31-Dec-23	31-Dec-22	30-Sep-23	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Mar-23
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations (Net)	70.55	41.38	63.12	722.30	140.57	498.59	197.88	152.96	1,699.39	246.16	271.58	532.36
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(205.53)	(410.01)	2,503.27	694.85	716.39	687.02	3,091.09	1,390.35	1,966.35	2,741.97	1,126.38	3,140.96
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(205.53)	(410.01)	2,503.27	694.85	716.39	687.02	3,091.09	1,390.35	1,966.35	2,741.97	1,126.38	3,140.96
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(371.92)	(289.04)	2,293.40	558.71	834.67	317.60	2,504.85	1,094.35	1,237.07	2,443.54	796.64	2,765.51
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	(151.11)	(343.00)	2,485.68	962.64	938.03	662.90	2,889.62	728.44	1,828.99	1,492.44	137.69	1,931.71
6	Equity Share Capital (Face value of share is Rs. 10/- each)	2,504.05	2,504.05	2,504.05	2,499.55	2,504.05	2,499.55	2,504.05	2,504.05	2,499.55	2,504.05	2,504.05	2,499.55
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Earnings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)												
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional Items) (in Rs.)	(1.49)	(1.15)	9.16	2.24	3.33	1.27	10.00	4.37	4.94	9.76	3.18	11.06
	(b) Basic and Diluted EPS (after exceptional Items) (in Rs.)	(1.49)	(1.15)	9.16	2.24	3.33	1.27	10.00	4.37	4.95	9.76	3.18	11.06

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the stock exchange website, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.modirubberlimited.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on February 12, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out a
 - Previous quarter/ year end figures have been rearranged and / or regrouped, wherever necessary, to make them comparable with those of the current quarter/ year end.

By order of the Board (Alok Kumar Modi)

Managing Director

(Amount in Lacs)

Place: New Delhi Date: 12th February, 2024

संक्षिप्त समाचार

पिस्टल छिनकर भाग रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़

जवाबी फायरिंग के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली, सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की थी

गाजियाबाद। तडके लगभग छह बजे के आसपास लिंक रोड थाने की एसओ प्रीति सिंह जब अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों एवं डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष दशरथ पाटिल की टीम के साथ उत्तम इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी गार्ड देव सिंह सिंह निवासी भिंड मरैना मध्यप्रदेश की हत्या करने वाले दो हत्याभियुक्तों को कस्टड़ी में लेकर आलाकत्ल चाकू की बरामदगी के लिए बताये गये स्थान की और जा रही थी तो उनमें से एक हत्यारे संदीप शर्मा पुलिस रविंद्र पाल शर्मा निवासी 2सी वसुंधरा पुलिसकर्मी की सरकारी पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागने लगा। उसके बाद एसओ प्रीति सिंह व स्वॉट टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भाग रहे बदमाश संदीप शर्मा के पैर में गोली मारकर लंगडा

🛡 सॉफ्टवेयर इंजीनियर

की पत्नी ने फांसी लगाई

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के सेक्टर-75 स्थित पंचशील

प्रतिष्ठा सोसायटी की 12वीं मंजिल से

तडके एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर

दी। ऊंचाई से जमीन पर गिरने के

कारण उक्त व्यक्ति की मौत हो गई।

सोसायटी में रहने वाले सॉफ्टवेयर

इंजीनियर की पत्नी ने फांसी का फंदा

लगाकर अपनी जान दे दी। पंचशील

सोसायटी में गौरव भट्टाचार्य 58

वर्षीय अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे।

विवरण

अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि

(कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मद) कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)

(आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्) कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)

. अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतुँ लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल

यापक आर्य (कर पश्चात्) शामिल]

रेजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोडकर

दिनांक: 12.02.2024

स्थानः नई दिल्ली

प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य)

वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक



हुए एसओ प्रीति सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घायल हत्याभियुक्त संदीप शर्मा व उसके साथी विशाल उर्फ वरूण निवासी सैक्टर 2बी 525 वसुंधरा को गिरफ्तार हिंडन निमिष दशरथ पाटिल से यह

12वीं मंजिल से नीचे कृदा सरकारी कर्मी, मौत

वह एक सरकारी विभाग में कार्यरत

थे और पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन

में चल रहे थे। आज तडके करीब 3

बजे उनकी पत्नी की आंख खुली तो

उन्हें गौरव भट्टाचार्य कमरे में नहीं

दिखाई दिए। कमरे का दरवाजा भीतर

से बंद था। उन्होंने देखा तो बालकनी

बालकोनी से नीचे झांकने पर उन्हें

गौतम भट्टाचार्य जमीन पर पड़े हुए

-1.41

-1.41

2.02

13.43

300.89

514.09

-2.07

-2.07

-1.53

8.36

1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाय-

2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत समीक्षा की गई, निदेशक मडल द्वारा 12-02-2024 को आयोजित बैठक में अनमोदि

वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट www.jindalleasefin.in पर भी उपलब्ध है

त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की

31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023

-8.85

-8.85

-6.55

27.07

522.44

-0.24

-10.43

-10.43

-3.47

-0.3 -0.3

कृते जिंदल लीजफिन लिमिनेड

(सुरेंद्र कुमार जिंदल)

प्रबंध निदेशक

-2.02

-2.02

-1.68

-9.09

-0.06

देव सिंह निवासी भिंड मुरैना की हत्या क्यों की गई तो इसके जवाब में श्री पाटिल का कहना था कि गार्ड की हत्या की मूल वजह टशनबाजी रही। श्री पाटिल ने बताया कि पुलिस करके आलाकत्ल चाकू बरामद कर कस्टड़ी में आये दोनों अपराधियों का लिया। इस संदर्भ में जब डीसीपी ट्रांस कहना है कि घटना से पहले उनकी बाइक गार्ड से अकरा गई थी। जिसके पछा गया कि कि सिक्योरिटी गार्ड बाद देव सिंह ने उन्हें गाली दे दी थी।

दिखाई दिए। वह पडोसियों की मदद

से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची जहां

चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर

दिया। सूचना मिलने पर थाना 113

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए

भिजवाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के

आम्रपाली गोल्फ सोसाइटी में

सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज सिंह

अपनी पत्नी पल्लवी उर्फ सोनिया के

साथ रह रहे है। अनुज रविवार को

अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। रात्रि के

समय उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार

फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं

हुआ। इसके बाद उन्होंने सोसायटी के

गार्ड मुकेश को फोन कर अपने फ्लैट

पर जाने को कहा। मुकेश जब अनुज

के फ्लैट पर पहुंचा तो उसे पल्लवी

फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

-11.92

-11.92

5.36

हिस्ट्रीशीटर बदमाश चेंटा को लगी गोली

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए रास्ते से घूम रहे हिस्ट्रीशीटर बदमाश की थाना फेस.3 पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर बदमाश विदेश पाल उर्फचेंटा गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से अवैध असलाह व चोरी की बाइक बरामद हुई है। थाना फेज.3 प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस मामूरा चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार एक युवक सेक्टर.59 की तरफभागने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने अपनी बाइक की गति और बढा दी और पुलिस पर फ ायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी और वह गिरकर घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम विदेशपाल उर्फ चेन्टा निवासी बसई बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकडा गया चेंटा थाने का हिस्टीशीटर बदमाश है। इस पर चोरी के



दर्जनों मुकदमें पंजीकृत है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से घम रहा था पकडे गए बदमाश के पास से बरामद बाइक भी चोरी की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए

घर से १० लाख व सोना लेकर दिल्ली निकला ज्वैलर लापता

🗕 लावारिस हालत में मिली कार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना दनकौर के बिलासपुर के कारोबारी के बेटे वैभव सिंघल का मामला अभी सुलझा ही था, कि एक और व्यापारी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबर से पुलिस विभाग में हडका मच गया है।

कासना थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव निवासी ज्वैलर मोहित वर्मा दिल्ली जाने के लिए अपने घर से दस लाख रुपये और सोना लेकर निकले थे।

लेकिन वह दिल्ली नहीं पहुंचे और संदिग्ध परिस्थियों में लापता हो गए। उनकी कार ओमीऋान-3 सेक्टर के पास लावारिस हालत में खडी मिली। मोहित का फोन भी स्विच ऑफ है। स्रजप्र कोतवाली पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर मोहित की तलाश शुरू कर दी है। सूचना के बाद लापता ज्वैलर्स की तलाश में जुटी पुलिस को ओमीऋान-3 सेक्टर के उसकी कार को बरामद कर लिया गया है। ज्वेलर मोहित वर्मा की कार अंदर से लॉक है और कार के अंदर मोहित के जूते भी बरामद हुए है। मोहित के परिजनों को किसी अनहोनी को लेकर अशंकित है।

हज यात्रा पर भेजने के नाम पर लाखों की ढगी

नोएडा। हज यात्रा पर भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंसी के संचालक ने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए हडप लिए।

पीडित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उन्होंने परिवार के लोगों को हज यात्रा करने के लिए दरियागंज शाहजमाल प्रोपराइटर आफ अलखादम ट्रैवल्स के मालिक शाह जमाल से संपर्क किया। उन्होंने परिजनों को हज यात्रा पर भेजने के लिए उनसे साढ़े छह लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। तय तिथि के बाद भी जब उन्हें हज यात्रा के लिए नहीं भेजा गया। उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकी दी गई।

ATHE PIONEER A ASSIFIED

I, SHALINI LAMBAH D/O (Late) Brig. Rajinder Nath Lambah (Retd.) R/o House No. 280, Sector 15 A, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh (201301), have changed my name from Shalini to Shalini Lambah for all future purposes.

PD(273)C

PUBLIC Notice

This is to inform the general public that Mrs. Aktais the GPA Holder of Property Bearing Plot No. 32-A, area measuring 53.1/2 sq. yds., Out of Khasra No. 2/23, situated in the revenue estate of Village Razapur Khurd MazraHastsal, Delhl State Delhl, area Abadi known as Colomy G-2, Sai Endave, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi.She acquired the above property through GPA, ATS, WILL dated 24.04.2023 executed by Mr. Bishambhar Dayalin favour of Mrs. Akta.

Mrs. Aktaintends to transfer the ownership by way of Sale Deed of the aforementioned Property to Mr. Jeetu Yadav & Mrs. Geeta Devl. Subsequently, Mr. Jeetu Yadav & Mrs. Goeta Devlare in the process of mortgaging the said property SMFG India Home Finance Co. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.

If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-day period by contacting Law Veritas:North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s):+910120-3101683 / 4562809; e-mail: accounts@lvnorth.in

PUBLIC NOTICE To be known to all that I, ANUPINDER SINGF, S/O LATE SIN. NIRANJAN SINGH R/O C-4/27 SECTOR-11, ROHINI, DELHI-110085, I am attorney of DDAI LIG FLAT NO, 71-8, IN BLOCK BA (BA-71-B) ON FIRST FLOOR, ALONG WITONE SCOOTER GARRAGE, SITUATED AT JANAKPURI, DELHI-110058, VIDE DDA FILE NO FEZI (263) TAY LIGHT LIGHT AND THE STORM TO THE AND THE STORM THE conversion of the aforesaid flat from lease hole to free hold The original (1) DEMAND LETTE (2) POSSESSION LETTER (3) DDANOC (ELECTRIC & WATER CONNECTION) (4) SITE POSSESSION SILP of the above flat have been lost. An FIR to this effect has been lodged in Police Station New Delhy, ide NCR/KRNO:1412702/2024 dated-05/02/2024. Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write, contact with above named person at above non the bate of publication of this notice. The berson claiming any right, interest, objection with respect to this property can personall inform or write to Dy. Director(LIG) Hor Director (ikas Sadan, INA New Delhi.

This Public Notice has been issued for General Public, under instructions from and on behalf of my client namely Mrs. Rupashree Sengupta wife of Late Arup Sengupta, R/O Y-147 Regency Park-2,DLF Phase 4, Gurgaon, Haryana-122009 and it is hereby informed that Late Sh. Arup Sengupta. who was the co-allottee of Property bearing Uni No.PH3-50-0602. The Palm Hills, Village Sikhopur No.FH3-5U-BUZ. In Pralim Hills, Village Siknopur, Sector 77, Gurugram, Haryana, Passed Away on 16/03/2022. He has not left any 'registered or unegistered' Will & is survived by legal heirs Mirs Rupashree Wengupta & Mr. Arjun Sengupta (Son). That my client Mrs. Rupashree Sengupta wife of the National Conference of the Late Arup Sengupta intends to apply for the transfe of the aforesaid property in her own name being the st Class legal heir of Late Arup Sengupta after

Mr.Arjun Sengupta has /will relinquish his rights in favor of Mrs.Rupashree Sengupta. If any person having any claim or interest in the said property may file his/her claim to the undersigned within 21 days from the date of publication of this

Vikas Sangwa Advocate & Solicitor Office at: Chamber No. 38 & 104, Shahee Sukhdev Singh Block, Distt. Courts, Gurgaor Contact: +91-8826283131, 99995 0009

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

informed that my clients Sh. Anil S/o Sh. Harswaroop and Smt. Parmila W/o Sh. Anil Both R/o Purani Firni, Behind Park 753, Gaon Alipur, North West, Delhi-110036, have

lisowned and debarred their son namel

novable properties on account of

criminal activities and my clients have severed all their relations from them and my

clients shall not be responsible in any mar for any of his misdeed, act and conduct.

Yogesh Pandey, Advocate. Ch. No:- 612, 6th Floor, Lawyers Chamber, Rohini Court, Delhi 110084

नोटिस

इसके द्वारा व्यापक रूप से जनता को नोटिस दिया

जाता है कि मेरी मुवक्किल अर्थात् श्रीमती रितु

शर्मा ने अपने बेटे अर्थात श्री पारस वत्स. जिनकी

उम्र लगभग 27 वर्ष है और उनकी बहू अर्थात् श्रीमती संजना गोस्वामी, जिनकी आय लगभग 27 वर्ष है को अलग कर दिया है और उन्हें वंचित कर दिया है। और मेरे पास मौजूद या मेरी किसी भी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार, स्वामित्व, हित या

दावा नहीं है, क्योंकि उक्त सभी संपत्तियां चल और

अचल दोनों हैं, मेरी स्वयं अर्जित संपत्ति जिस पर

मेरे बेटे और मेरी बहु का कोई अधिकार नहीं है

और न ही कोई दावा करता है। मेरे उक्त बेटे और बहू के पास मेरी उक्त संपत्ति की सुरक्षा पर कोई

ऋण लेने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है और

इसके बाद कोई भी व्यक्ति उसे कोई ऋण या अग्रिम

देगा तो वह पूरी तरह से अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा। मैं, न ही मेरी संपत्तियां,

किसी भी तरह से ऐसे ऋणों के लिए जिम्मेदार

आकाश स्वामी (वकील)

चैंबर नं. 8, ओल्ड लॉयर्स चैंबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-110001

larsh from their entire movable

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23,

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत

आईसीआई सैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह–कर्जदार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क. सं.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	
	डीडीए एमआईजी फ्लैट 276, तीसरी मंजिल, प्रसाद नगर, पुलिस स्टेशन के पास, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली/ फरवरी 09, 2024	अक्टूबर 23, 2023 रु. 23,39,291.00/-	दिल्ली

मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नगर निगम सफ ाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने

गाजियाबाद नगर निगम

चालकों की हडताल

गाजियाबाद। नगर निगम की

वाली गाडियों के अनिश्चितकालीन हडताल पर चले गए हैं। कड़ा कलेक्शन गाडियों के ड्राइवरों ने एक जगह एकत्र होकर प्रदर्शन किया। ड्राइवरों ने बताया कि वह सभी नेचर गेन कम्पनी के तहत कूड़ा कलेक्शन की गाडियों पर तैनात हैं। लेकिन पिछले तीन साल से न तो उनका वेतन बढाया गया है ना हीं उन्हें कोई छुट्टी या फिर अन्य फंड दिया जा रहा है। तीन साल से उनको महज नौ हजार 90 रुपए मासिक वेतन

सीआईएन नं. L74899DL1994PLC061995 रजि. कार्यालयः 92, खसरा नं. 33/21, राणाजी एन्क्लेव, नजफगढ़, अर्जुन पार्क बस स्टैंड के पास नई दिल्ली-110043 ईमेल आईडी: superiorfiniease@gmail.com; वेबसाइट: www.superiorfiniease.com; फोन नं. +91-9953798335 31 दिसंबर, 2023 को तिमाही समाप्ति हेतु स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड

			1	लाख लवप मा
珟.		तिमाही समाप्ति	तिमाही समाप्ति	वर्ष समाप्ति
	विवरण	31.12.2023	30.09.2023	31.03.2023
सं.		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	संचालनों से कुल आय	31.16	32.07	223.81
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)			
	(कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मद)	3.59	(9.36)	45.08
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)			
	(आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	3.59	(9.36)	45.08
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)			
	(आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	3.59	(9.36)	33.36
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु			
	लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक			
	आय (कर पश्चात्) शामिल]	3.59	(9.36)	33.36
6	इक्विटी शेयर पूंजी	300.10	300.10	300.10
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)			
	जैसा कि लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया है	77.58	77.58	77.58
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का)			
	1. मूलभूत	0.01	(0.03)	0.11
	2. तरलीकृत	0.01	(0.03)	0.11

. . . . उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.superiorfinlease.com पर उपलब्ध है।

कृते सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड (रजनीश कुमार) निदेशक

डीआईएनः 02463693

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 12 फरवरी, 2024

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23 **(शाखा कायालय :** आइसाजाइसाजार नुकराता है। विद्यादा **Bank** न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिट्रेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार /सह-कर्जदार /जमानतदार राशि का प्रतिभगतान करने में विफल रहे हैं. अतएव एतद दारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण की संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेत् आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

	क्र.	कर्ज़दार / सह–कर्ज़दार का	संपत्ति का विवरण/	डिमांड नोटिस की तिथि/	शाखा का
Ш	सं.	नाम/ऋण खाता क्र.	सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	नाम
	1.		नगर निगम संपत्ति संख्या 68/3 पी, सूर्य	अक्टूबर 30, 2023	मथुरा/
П			नगर, प्लॉट नंबर 4 का हिस्सा, मौजा नरौली	₹.	गाज़ियाबाद/
		शर्मा/ संजय शर्मा/	चंद्रपुरी एक्सटेंशन, मथुरा, उत्तर प्रदेश-	76,31,301/-	बरेली
Ш		LBMAT00002429619	281001/ फरवरी 08, 2024		

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह–कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी करें दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : फ़रवरी 13, 2024 स्थान : गाज़ियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि



पत्रांक : 573 / 535 / 11

अल्पकालीन निविदा सूचना

दिनांक : 12.02.2024

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु मोहरबंद निविदा, दिनांक 26.02.2024 अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी कार्यदिवस में अपरान्ह 03:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। उक्त दिनांकों में अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस को डाली / खोली जायेगी।

क्र0 सं0	177/100		योजन	ा का ना	Я	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	भीमताल	देवीधूरा योजना कार्य।	कून के	पम्पिंग अन्तर्गत	पेयजल अवशेष	48000.00	2 माह	500+ जी0एस0टी0 18%
1 -	.							

1. नियम एवं अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से साय 5.00 बजे तक कार्यालय या नोटिस बोर्ड में देखी जा सकती है। 2. वेकेदार / फर्म द्वारा **पाईप लाइन कार्य श्रेणी डी एवं उच्चतर श्रेणी** में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियन्ता 'जल संचय –जीवन संचय'' ''कृपया जल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये' 'जल स्त्रोत बताइये-पेयजल योजना पाइये'' ''जल स्त्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है''

वगीकरण ⁄ प्रस्तुति की पुष्टि करें।

स्थानः नई दिल्ली

जताई है कि आरोपी उनकी बेटी की हत्या कर सकते हैं। इसके अलावा थाना ईकोटेक-3 के सैनी गांव से एक किशोर अपने परिजनों की डांट के

किशोरी का दो भाइयों ने किया अपहरण

अतिरिक्त पुलिस आयक्त शिकायतों का निवारण करते हुए।

नोएडा। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के बरौला गांव से दो भाइयों ने एक

नाबालिक किशोरी का अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार ने आशंका

बाद घर से चला गया। बरौला गांव में किराए पर रहने वाली कामिनी काल्पनिक नाम ने बताया कि उसके पति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। घर पर उनकी नाबालिक पुत्री बेटे रहते हैं। बीते 6 फरवरी को उनके 17 वर्षीय बेटी घर से मार्केट कुछ सामान लेने गई थी रास्ते में उसे अभिषेक उर्फविक्की व लकी पुत्र विनोद जबरन उसका अपहरण कर ले गए। शाम के समय जब वह ड्यूटी से घर वापस लौटे तो उन्हें अपने बेटी के अपहरण की जानकारी मिली। इस संबंध में उन्होंने थाना सेक्टर 49 में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थाना पुलिस ने उनकी बेटी की गुमशुद्गी की रिपोर्ट

दर्ज की है। जबकि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। पीडिता के मृताबिक दोनों लड़के बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा पूर्व में भी किसी लड़की का

सलाम नमस्ते में रेडियो उत्सव की शुरुआत

अपहरण कर ले आए थे।

नोएडा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईएमएस नोएडा के सामदायिक रेडियो सलाम नमस्ते में रेडियो उत्सव का आरंभ हुआ। सोमवार को सेक्टर 62 स्थित संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईएमएस के महानिदेशक प्रो डॉ विकास धवन के साथ कम्युनिटी आर्टिस्ट पुनम नारायण एवं वेस्ट मैनेजमेंट आर्टिस्ट और लेखक दीप्ति शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 12 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अपनी खशी जाहिर करते हुए प्रो डॉ विकास धवन ने कहा कि यह उत्सव देश में सामुदायिक रेडियों के 20 पूरे होने का जश्न है। सलाम नमस्ते अपने 15 वर्षों की रेडियो यात्रा के दौरान महिलाएं, चेंजमेकर्स, कलाकार एवं युवाओं के भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए 28 फरवरी को उत्सव का समापन करेगा।

सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल डालकर फूंक दी कार

नोएडा। युवती द्वारा मिलने से मना करने पर एक सिरिफरे आशिक ने उसके घर के बाहर खड़ी वेगनआर कार को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। सिरिफरे की हरकतों से परेशान युवती ने उसके खिलाफथाना जारचा में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी मंजू काल्पनिक नाम ने बताया कि वह सेक्टर.137 में किराए पर रहती है और वहीं नौकरी करती है। उसके गांव का ही युवक अंकित पुत्र सुनील उस पर पिछले समय से दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था। उसके इनकार करने पर वह उसे आए दिन परेशान करता था। अंकित सेक्टर.137 आकर भी उसे परेशान करता है। बीती 8 फ रवरी को अंकित ने मैसेज का जवाब न देने पर उसे गाली.गलौज के मैसेज किया और मिलने के लिए दबाव बनाया।

करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के सलारपुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति बिजली की करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिवार के लोगों ने उसे ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको घोषित कर दिया। परिवार के लोगों का आरोप है बिजली विभाग के लापरवाही से यह हादसा हुआ है। जिसको लेकर उन्होंने कोतवाली पहुंचकर इस मामले की शिकायत की है। साथ ही सोमवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव को बिजली घर पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। गांव निवासी हुकम सिंह ने बताया कि उनके घर पर रविवार रात को एक कार्यक्रम था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम घर की छत पर हो रहा था। उसी दौरान उनका भतीजा वीरेंद्र 45 11 हजार वोल्ट की बिजली की लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल अन्य लोगों ने भी भागकर अपनी जान बचाई।

NAME CHANGE

(प्रति शेयर डेटा को छोडकर लाख रुपये :

कॉर्पोरेट पहचान सं. L65929DL1947PLC001240 रिज. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, इहादुर शांड जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फोन: 7303495375, ई-मॉल- pnbfinanceindustries@gmail.com बेदसाइट - www.pnbfinanceandindustries.com 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों हेतू अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

		तिमाही	नौ माह	तिमाही	वर्ष
		समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति
क्र. सं.	विवरण	दिसम्बर	दिसम्बर	दिसम्बर	मार्च
KH.		31, 2023	31, 2023	31, 2022	31, 2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	संचालनों से कुल आय	241.24	927.35	115.26	1,126.96
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	206.72	673.44	69.38	793.20
	(कर पूर्व, ऑपवादिक और/या				
	असाधारण मद)				
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	206.72	673.44	69.38	301.42
	(आपवादिक और /या असाधारण मद				
	पश्चात्)				
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	172.84	562.17	67.20	179.39
	(आपवादिक और/या असाधारण मद				
	पश्चात्)				
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि	4,789.09	3,768.19	7,105.76	21,815.33
	हेतु लाभ/(हॉनि) (कर पश्चात्) और				
	अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्)				
	शामिल]				
6	इक्विटी शेयर पूंजी				
	(अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर)	320.00	320.00	320.00	320.00
7	अन्य इक्विटी (वर्ष के अंत तक)				2,65,249.34
8	प्रत्येक 10 रुपये के प्रति शेयर आय				
	1. मूलभूत (रु. में)	5.40	17.57	2.10	5.61
	2. तरलीकृत (रु. में)	5.40	17.57	2.10	5.61

टिप्पणियाँः

1. उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और फरवरी 12, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। कंपनी के उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे 12 फरवरी, 2024 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी भेजा गया है।

तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की प्रमुख संख्या

idiligi siit ili ilgiil ib ide sidali didd cessidii ladii alt ilii al xiga daal							
	(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर लाख रुपये में)						
	तिमाही	नौ माह	तिमाही	वर्ष			
	समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति			
विवरण	दिसम्बर	दिसम्बर	दिसम्बर	मार्च			
, , , , ,	31, 2023 अलेखापरीक्षित	31, 2023 अलेखापरीक्षित	31, 2022 अलेखापरीक्षित	31, 2023 लेखापरीक्षित			
संचालनों से कुल आय	161.78	827.54	111.31	1,065.60			
कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	128.39	576.98	66.42	716.43			
कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	107.08	481.11	64.70	603.13			
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	4,505.95	3,569.09	6,407.26	12,553.19			
संबंधित तिमाही के आँकड़ों को पुनः समूहीकृत ∕पुनः वर्गीकृत किया गया है, जहां भी आवश्यक हो वर्तमान तिमाही							
ਸ਼ੀਕਰਸ਼ ਪਸ਼ਕੀਕ ਕੀ ਸ਼ਰਿਕ ਕਰੋਂ ।							

पीएनबी फाडनेंस एंड इंडस्टीज लिमिटेड

निदेशक एवं कंपनी सचिव डीआईएनः 03120958/सदस्यता सं. ए18585 **(शाधा प्राप्ताचार : आह्या : आह्य**

स		उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30	दिनों वे	के अं
ड		राशि का भूगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नि	यम 8	और
-		प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।		
ना 📗	- 1		_	_

दिनांक : फ़रवरी 13, 2024 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली आईसीआईसीआई बैंक लि.